



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2395]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2010/अग्रहायण 3, 1932

No. 2395]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2010/AGRAHAYANA 3, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

**का.आ. 2828(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 के 10/400 कि.मी. से 58/630 कि.मी. तक के भू-खण्ड (मदुरई-रामानाथपुरम-रामेश्वरम-धनुषकोडी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर्स के साथ दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, जिला शिवगंगा, तमिलनाडु, जिसका कार्यालय शिवगंगा में है, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 के 10/400 कि.मी. से 56/630 कि.मी. तक (मदुरई - रामानाथपुरम - रामेश्वरम- धनुषकोडी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/ पेवड शोल्डर्स के साथ दो लेन का बनाने, आदि) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शिवगंगा	भानामदुरई	(1) मनालुर	24/1बी1 भाग	निजी	शुष्क	300
				24/1बी2 भाग	निजी	शुष्क	1500
				24/2 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1900
				25/ भाग	सरकारी	पोरमबोक	6350
				27/1डी3 भाग	निजी	शुष्क	1250
				27/1ए1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1350
				27/2बी भाग	निजी	शुष्क	2900
				27/3 भाग	निजी	नाथम	5300
				27/4बी भाग	निजी	नाथम	3950
				31/1 भाग	निजी	नाथम	600
				31/2 भाग	निजी	नाथम	2000
				31/7 भाग	निजी	नाथम	550
				31/8 भाग	निजी	नाथम	700
				31/9 भाग	निजी	नाथम	750
				31/3बी भाग	निजी	शुष्क	1700
				31/4बी1 भाग	निजी	शुष्क	750
				31/4बी2 भाग	निजी	शुष्क	600
				31/4बी3 भाग	निजी	शुष्क	400
				31/5बी भाग	निजी	शुष्क	250
				31/3ए	सरकारी	पोरमबोक	1150
				32/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1400
				32/4 भाग	सरकारी	पोरमबोक	150
				28/1	सरकारी	पोरमबोक	1800
				28/2बी	निजी	शुष्क	300
			(2) टी नेलमुडिकरई	8/1ए1	सरकारी	पोरमबोक	50
				8/1ए2	निजी	शुष्क	350
				8/1बी1	निजी	शुष्क	550
				85/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	400
				85/2बी भाग	निजी	नम	200
				85/3ए भाग	निजी	नम	4200
				85/3बी भाग	निजी	नम	3300

1	2	3	4	5	6	7	8
				85/4बी भाग	निजी	नम	700
				86/1 भाग	निजी	नम	2600
				86/2 भाग	निजी	नम	1300
				86/3 भाग	निजी	नम	2650
				86/4ए भाग	निजी	नम	250
				86/4बी	निजी	नम	300
				86/4सी	निजी	नम	350
				86/6 भाग	निजी	नम	50
				86/7 भाग	निजी	नम	250
				87/3 भाग	निजी	नम	1200
				88/1ए भाग	निजी	नम	2650
				88/2ए भाग	निजी	नम	1200
				88/2बी भाग	निजी	नम	1250
				88/3ए भाग	निजी	नम	1900
				88/3बी भाग	निजी	नम	1000
				89/4 भाग	निजी	नम	350
				89/5ए भाग	निजी	नम	50
				90/2 भाग	निजी	नम	600
				90/4 भाग	निजी	नम	1200
				90/5ए	निजी	नम	400
				90/5बी भाग	निजी	नम	1200
				91/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	600
				91/5 भाग	निजी	नम	2800
				91/6ए भाग	निजी	नम	950
				91/6बी भाग	निजी	नम	500
				92/1 भाग	निजी	नम	3100
				92/4ए भाग	निजी	नम	3300
				92/4बी भाग	निजी	नम	450
				92/5 भाग	निजी	नम	3800
				92/6 भाग	निजी	नम	600
				93/1 भाग	निजी	नम	550
				109/3 भाग	निजी	नम	1500
				109/6 भाग	निजी	नम	4400
				113/4 भाग	निजी	नम	3400
				114/1 भाग	निजी	नम	900
				114/2ए भाग	निजी	नम	2000
				114/2बी भाग	निजी	नम	2000
				114/3 भाग	निजी	नम	2100
				114/4ए भाग	निजी	नम	1300

1	2	3	4	5	6	7	8
				114/4बी भाग	निजी	नम	1700
				114/5बी भाग	निजी	नम	550
				114/5ए भाग	निजी	नम	350
				118/1 भाग	निजी	नम	1000
				118/2 भाग	निजी	नम	1600
				118/3 भाग	निजी	नम	500
				118/6 भाग	निजी	नम	2500
				118/7ए	निजी	नम	100
				118/7बी भाग	निजी	नम	1200
				118/9 भाग	निजी	नम	1600
				118/10ए	निजी	नम	150
				118/10बी भाग	निजी	नम	600
				118/5 भाग	निजी	नम	3250
				120/4ए भाग	निजी	नम	4500
				121/1बी भाग	निजी	नम	850
				121/2 भाग	निजी	नम	650
				121/3 भाग	सरकारी	पोरमबोक	500
				121/4बी भाग	निजी	नम	1650
			(3) लडानेन्दल	23/1 भाग	निजी	शुष्क	2000
				23/3 भाग	निजी	शुष्क	120
				23/4 भाग	निजी	शुष्क	50
				23/5 भाग	निजी	शुष्क	2300
				227/2 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1320
				227/3 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1020
				227/4	सरकारी	पोरमबोक	400
				227/6 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1800
				227/10 भाग	सरकारी	पोरमबोक	80
				228/1बी भाग	निजी	शुष्क	1400
				228/1ए	सरकारी	पोरमबोक	100
			(4) वलाईयनेदल	80/ भाग	सरकारी	पोरमबोक	8300
				82/4 भाग	निजी	नम	1485
				82/6 भाग	निजी	नम	2565
				82/9 भाग	निजी	नम	370
				83/1 भाग	निजी	नम	3920
				83/2 भाग	निजी	नम	4800
				83/3ए भाग	निजी	नम	380
				84/5 भाग	निजी	नम	365
				90/3 भाग	निजी	नम	65
				91/1ए भाग	निजी	शुष्क	240

1	2	3	4	5	6	7	8
				91/1बी	निजी	शुष्क	300
				91/1सी	निजी	शुष्क	300
				91/2ए	निजी	नम	1100
				91/2बी भाग	निजी	नम	550
				91/3 भाग	निजी	नम	100
				91/5 भाग	निजी	नम	80
				94/1 भाग	निजी	नम	1250
				94/4 भाग	निजी	नम	175
				94/5 भाग	निजी	नम	500
				94/6	निजी	नम	950
				94/7	निजी	नम	800
				94/8ए भाग	निजी	नम	3800
				94/8बी	निजी	नम	1500
				94/8सी भाग	निजी	नम	1450
				94/8डी भाग	निजी	नम	650
				95/1 भाग	निजी	नम	1000
				95/5 भाग	निजी	नम	35
				130/ भाग	सरकारी	पोरमबोक	2815
				134/7 भाग	निजी	शुष्क	2070
				134/8 भाग	निजी	शुष्क	1150
				137/ भाग	सरकारी	पोरमबोक	1450
				140/1 भाग	निजी	शुष्क	3200
				140/2ए भाग	सरकारी	पोरमबोक	920
				140/2बी1 भाग	निजी	शुष्क	2450
				140/4 भाग	निजी	शुष्क	435
				140/5बी भाग	निजी	शुष्क	975
				141 भाग	सरकारी	पोरमबोक	850
			(5)मालाहवारायनेदल	109/1ए भाग	निजी	नम	3727
				109/1बी भाग	सरकारी	पोरमबोक	700
				109/2 भाग	निजी	नम	364
				109/3ए	निजी	नम	800
				109/3बी भाग	निजी	नम	1214
				109/4ए	निजी	नम	800
				110/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	37
				110/2ए भाग	निजी	नम	1319
				110/3ए2 भाग	निजी	नम	6
				110/2बी	सरकारी	पोरमबोक	2250
				110/3ए6 भाग	निजी	नम	916
				110/11 भाग	निजी	नम	814

1	2	3	4	5	6	7	8
			(6)तिरुप्पुवनम	2/1ए1ए भाग	निजी	शुष्क	6680
				2/1ए1ए भाग	निजी	शुष्क	500
				2/1ए2 भाग	निजी	शुष्क	735
				2/1ए1बी भाग	निजी	शुष्क	975
				2/1बी	निजी	शुष्क	1150
				2/2	सरकारी	पोरमबोक	1400
				4/1ए1ए भाग	निजी	शुष्क	500
				4/1ए1बी भाग	निजी	शुष्क	2073
				4/1ए2 भाग	निजी	शुष्क	1450
				4/1बी भाग	सरकारी	पोरमबोक	400
				4/1सी भाग	निजी	शुष्क	476
				4/6ए भाग	निजी	शुष्क	91
				11/1ए भाग	निजी	शुष्क	259
				11/1बी भाग	निजी	शुष्क	240
				11/1सी भाग	निजी	शुष्क	208
				11/2 भाग	निजी	शुष्क	582
				11/3 भाग	निजी	शुष्क	612
				11/4ए भाग	निजी	शुष्क	1237
				11/5ए1 भाग	निजी	शुष्क	1013
				11/5ए2	निजी	शुष्क	100
				11/6ए भाग	निजी	शुष्क	1100
				11/7 भाग	निजी	शुष्क	574
				11/8ए1 भाग	निजी	शुष्क	50
				11/8ए2 भाग	निजी	शुष्क	184
				11/8ए3 भाग	निजी	शुष्क	110
				11/8ए4 भाग	निजी	शुष्क	100
				11/9ए1ए भाग	निजी	शुष्क	265
				11/9ए1बी भाग	निजी	शुष्क	1033
				11/9ए2 भाग	निजी	शुष्क	1200
				11/10ए1 भाग	निजी	शुष्क	172
				11/10ए2 भाग	निजी	शुष्क	172
				11/10ए3 भाग	निजी	शुष्क	72
				11/11 भाग	सरकारी	पोरमबोक	84
				12/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	700
				12/2ए भाग	निजी	शुष्क	486
				14/1 भाग	निजी	जी आर	1397
				14/2 भाग	निजी	जी आर	644
				14/3 भाग	निजी	शुष्क	1450
				14/4 भाग	निजी	शुष्क	100

1	2	3	4	5	6	7	8
				14/9 भाग	निजी	जी आर	2630
				14/10 भाग	निजी	शुष्क	460
				15/1 भाग	निजी	शुष्क	3485
				15/2 भाग	निजी	शुष्क	405
				15/3 भाग	निजी	शुष्क	380
				15/4 भाग	निजी	शुष्क	1210
				15/5 भाग	निजी	शुष्क	2230
				15/6 भाग	निजी	शुष्क	950
				15/7 भाग	निजी	शुष्क	398
				15/8 भाग	निजी	शुष्क	1438
				15/9 भाग	निजी	शुष्क	18
				15/10 भाग	निजी	शुष्क	2134
				16/13 भाग	निजी	शुष्क	232
				16/14 भाग	निजी	शुष्क	465
				19/2बी भाग	निजी	शुष्क	45
				19/5 भाग	सरकारी	पोरमबोक	580
				63/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	92
				63/2 भाग	सरकारी	पोरमबोक	700
				63/3 भाग	सरकारी	पोरमबोक	2650
				64/2ई3ए भाग	सरकारी	पोरमबोक	300
				64/2ई3बी भाग	निजी	शुष्क	240
				119/2 भाग	निजी	नम	750
				119/3बी भाग	निजी	नम	315
				119/4 भाग	निजी	नम	110
				120/2बी भाग	निजी	नम	85
				120 /6 भाग	निजी	नम	2900
				120/3 भाग	निजी	नम	1620
				123/1 भाग	निजी	नम	800
				123/4 भाग	निजी	नम	2400
				123/5 भाग	निजी	नम	1880
				124/1 भाग	निजी	नम	5100
				124/2 भाग	निजी	नम	4050
				126/1 भाग	निजी	नम	610
				126/2 भाग	निजी	नम	2200
				126/3 भाग	निजी	नम	2335
				126/4 भाग	निजी	नम	365
				127/1 भाग	निजी	नम	5930
				127/3 भाग	निजी	नम	1960
				165/1ए भाग	निजी	नम	765

1	2	3	4	5	6	7	8
				165/1बी भाग	निजी	नम	30
				165/3ए	निजी	नम	2200
				165/3बी भाग	निजी	नम	1800
				165/5बी भाग	निजी	नम	180
				166/1ए भाग	निजी	नम	3200
				166/2 भाग	निजी	शुष्क	385
				166/1बी भाग	निजी	नम	940
				166/1सी भाग	निजी	नम	1315
				223/5 भाग	निजी	नम	1325
				224/2 भाग	निजी	नम	1850
				224/3 भाग	निजी	नम	2520
				225/1 भाग	निजी	नम	3250
				225/2 भाग	निजी	नम	3320
				225/3बी भाग	निजी	नम	915
				225/3सी भाग	निजी	नम	915
				225/3डी भाग	निजी	नम	2150
				225/4 भाग	निजी	नम	1945
				225/5 भाग	निजी	नम	2000
				225/6ए भाग	निजी	नम	935
				225/6बी भाग	निजी	नम	965
				168/1 भाग	सरकारी	पोरमबोक	300
				168/2 भाग	निजी	नम	1225
				168/3 भाग	निजी	नम	3650
				168/4ए भाग	निजी	नम	1050
				168/5ए भाग	निजी	नम	2155
				168/5बी भाग	निजी	नम	2065
				172/2बी भाग	निजी	नम	3650
				173/4ए भाग	निजी	नम	1965
				173/6 भाग	निजी	नम	120
				173/4बी	निजी	नम	850
				188/1 भाग	निजी	नम	2560
				188/3 भाग	निजी	नम	3435
				189/1 भाग	निजी	नम	3340
				190.1 भाग	निजी	नम	1040
				199/6 भाग	निजी	नम	990
				199/7 भाग	निजी	नम	1830
				199/8 भाग	निजी	नम	3415
				199/13 भाग	निजी	नम	80
				199/14	निजी	नम	2000



1	2	3	4	5	6	7	8
				200 भाग	निजी	नम	1710
				201/2 भाग	निजी	नम	1940
				201/3 भाग	निजी	नम	5390
				202/1 भाग	निजी	नम	1965
				203/1 भाग	निजी	नम	1030
				203/6 भाग	निजी	नम	350
				203/2 भाग	निजी	नम	785
				203/3ए भाग	निजी	नम	375
				203/3सी भाग	निजी	नम	1300
				203/3 बी	निजी	नम	1200
				203/5 भाग	निजी	नम	2900
				203/4ए भाग	निजी	नम	1950
				203/4बी भाग	निजी	नम	1350
				204/1 भाग	निजी	नम	975
				204/2 भाग	निजी	नम	3205
			(7)तिरुप्पाछेती उत्तर	63/2ए1 भाग	निजी	नम	450
				63/2ए2 भाग	निजी	नम	247
				63/3 भाग	सरकारी	पोरमबोक	1333
				63/5ए भाग	निजी	नम	140
				63/5सी भाग	निजी	नम	330
				63/6बी भाग	सरकारी	पोरमबोक	1310
				63/2बी	सरकारी	पोरमबोक	550
				63/6ए1	निजी	नम	850
				63/6ए2	निजी	नम	1750
				67/8 भाग	निजी	नम	900
				68/3ए1 भाग	निजी	नम	776
				68/3बी भाग	सरकारी	पोरमबोक	12
				68/1 भाग	निजी	नम	35
				68/2 भाग	निजी	नम	1532
				68/10 भाग	निजी	नम	575
				68/5 भाग	निजी	नम	1474
				68/3ए2 भाग	निजी	नम	696
				68/4ए1 भाग	निजी	नम	1127
				68/4ए2 भाग	निजी	नम	563
				68/6ए भाग	निजी	नम	839
				68/6ए भाग	निजी	नम	450
				68/11	निजी	नम	900
				68/12	निजी	नम	1400
				69/2 भाग	निजी	नम	2692

1	2	3	4	5	6	7	8
				69/1 भाग	निजी	नम	88
				69/7 भाग	निजी	नम	373
				69/3ए	निजी	नम	800
				69/8	निजी	नम	200
				69/3बी1 भाग	निजी	नम	1155
				69/3बी2 भाग	निजी	नम	138
				70/4 भाग	निजी	नम	81
				70/7ए भाग	निजी	नम	192
				70/7बी भाग	निजी	नम	709
				70/6ए भाग	निजी	नम	891
				70/6बी भाग	निजी	नम	1068
				82/1ए भाग	निजी	नम	1549
				82/1बी भाग	निजी	नम	1422
				82/3 भाग	निजी	नम	1387
				82/2 भाग	निजी	नम	266
				82/7 भाग	निजी	नम	944
				82/10 भाग	निजी	नम	867
				82/5 भाग	निजी	नम	321
				79/5 भाग	निजी	नम	68
				79/7 भाग	निजी	नम	1689
				79/6 भाग	निजी	नम	36
				80/5 भाग	निजी	नम	3370
				80/3बी भाग	निजी	नम	465
				80/4	निजी	नम	950
				80/6 भाग	निजी	नम	514
				81/1सी भाग	निजी	नम	159
				81/1डी भाग	निजी	नम	1548
				81/5 भाग	निजी	नम	116
				81/8 भाग	निजी	नम	942
				81/9 भाग	निजी	नम	53
				81/10 भाग	निजी	नम	879
				81/7 भाग	निजी	नम	837
				81/11ए भाग	निजी	नम	2336
				81/6	निजी	नम	350
				81/3	निजी	नम	200
				87 भाग	सरकारी	पोरमबोक	970
				86/2 भाग	निजी	नम	25
				86/3 भाग	निजी	नम	1290
				86/10 भाग	निजी	नम	418

1	2	3	4	5	6	7	8
				86/4बी1 भाग	निजी	नम	615
				86/4ए	निजी	नम	350
				86/4बी2 भाग	निजी	नम	35
				86/8 भाग	निजी	नम	2330
				103/1 भाग	निजी	नम	1856
				106/1 भाग	निजी	नम	1450
				106/2बी भाग	निजी	नम	750
				106/2सी भाग	निजी	नम	1320
				106/2ए	निजी	नम	1900
				105/1 भाग	निजी	नम	343
				105/3 भाग	निजी	नम	616
				105/7ए भाग	निजी	नम	964
				105/4 भाग	निजी	नम	224
				105/8 भाग	निजी	नम	2035
				105/6 भाग	निजी	नम	1208
				105/7सी भाग	निजी	नम	276
				105/7डी भाग	निजी	नम	336
				105/7बी	निजी	नम	2050
				118/2 भाग	निजी	नम	1577
				107/1बी भाग	निजी	नम	1441
				107/9बी भाग	निजी	नम	568
				107/4ए भाग	निजी	नम	395
				107/4बी भाग	निजी	नम	1606
				107/12 भाग	निजी	नम	635
				107/8 भाग	निजी	नम	157
				107/2 भाग	निजी	नम	39
				107/10 भाग	निजी	नम	544
				107/3ए भाग	निजी	नम	279
				107/3बी भाग	निजी	नम	4
				107/11	निजी	नम	1150
				107/4सी भाग	निजी	नम	2032
				115/5 भाग	निजी	नम	4662
				115/6 भाग	निजी	नम	1982
				115/7बी भाग	निजी	नम	252
				112/2 भाग	निजी	नम	905
				112/3 भाग	निजी	नम	2450

1	2	3	4	5	6	7	8
				112/4ए भाग	निजी	नम	1284
				112/4बी भाग	निजी	नम	1250
				112/5 भाग	निजी	नम	60
				113/1 भाग	निजी	नम	942
				113/5 भाग	सरकारी	नम	850
				113/4 भाग	निजी	नम	1740
				113/7 भाग	निजी	नम	228
				113/8ए भाग	निजी	नम	829
				113/9ए भाग	निजी	नम	1583
				113/11 भाग	निजी	नम	30
				113/3ए भाग	निजी	नम	1388
				113/3बी भाग	निजी	नम	814
				114/1बी भाग	सरकारी	पोरमबोक	1250
				114/2ए भाग	निजी	नम	428
				117/6 भाग	निजी	नम	90
				117/7 भाग	निजी	नम	594
				117/8ए भाग	निजी	नम	2425
				117/8बी भाग	निजी	नम	804
				117/9 भाग	सरकारी	पोरमबोक	432
				117/17 भाग	निजी	नम	1646
				117/18	निजी	नम	550
				117/19 भाग	निजी	नम	643

[फा. सं. भाराराप्रा-मुआ/11013/2010/एलए/नोटिफ/पीआईयू-कार्डकुडी]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2010

**S.O. 2828(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below is required for building (widening /two-laning with paved shoulders, etc.,) maintenance, management and operation of **National Highways No. 49** on the stretch of land **from Km.10/400 to Km.56/630 (Madurai – Ramanathapuram – Rameshwaram – Dhanuskodi section)** in the District of Sivaganga in the State of Tamilnadu, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Sivaganga, Tamil Nadu having his office at Sivaganga in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector and opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the lands covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of the land from Km 10/400 to Km 56/630 for building (widening / two laning with paved shoulders etc.), (Madurai - Ramanathapuram - Rameshwaram - Dhanuskodi Section) of National Highways 49 in the state of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey / sub division number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sivaganga	Manamadurai	(1) Manalur	24/1B1 pt	Private	Dry	300
				24/1B2 pt	Private	Dry	1500
				24/2 pt	Government	Poramboke	1900
				25/ pt	Government	Poramboke	6350
				27/1D3 pt	Private	Dry	1250
				27/1A1 pt	Government	Poramboke	1350
				27/2B pt	Private	Dry	2900
				27/3 pt	Private	Natham	5300
				27/4B pt	Private	Natham	3950
				31/1 pt	Private	Natham	600
				31/2 pt	Private	Natham	2000
				31/7 pt	Private	Natham	550
				31/8 pt	Private	Natham	700
				31/9 pt	Private	Natham	750
				31/3B pt	Private	Dry	1700
				31/4B1 pt	Private	Dry	750
				31/4B2 pt	Private	Dry	600
				31/4B3 pt	Private	Dry	400
				31/5B pt	Private	Dry	250
				31/3A	Government	Poramboke	1150
				32/1 pt	Government	Poramboke	1400
				32/4 pt	Government	Poramboke	150
				28/1	Government	Poramboke	1800
				28/2B	Private	Dry	300
			(2) T.Nelmudikarai	8/1A1	Government	Poramboke	50
				8/1A2	Private	Dry	350
				8/1B1	Private	Dry	550
				85/1 pt	Government	Poramboke	400
				85/2B pt	Private	Wet	200
				85/3A pt	Private	Wet	4200
				85/3B pt	Private	Wet	3300
				85/4B pt	Private	Wet	700
				86/1 pt	Private	Wet	2600
				86/2 pt	Private	Wet	1300
				86/3 pt	Private	Wet	2650
				86/4A pt	Private	Wet	250
				86/4B	Private	Wet	300
				86/4C	Private	Wet	350
				86/6 pt	Private	Wet	50
				86/7 pt	Private	Wet	250
				87/3 pt	Private	Wet	1200
				88/1A pt	Private	Wet	2650
				88/2A pt	Private	Wet	1200
				88/2B pt	Private	Wet	1250
				88/3A pt	Private	Wet	1900
				88/3B pt	Private	Wet	1000
				89/4 pt	Private	wet	350
				89/5A pt	Private	Wet	50
				90/2 pt	Private	Wet	600

1	2	3	4	5	6	7	8
				90/4 pt	Private	Wet	1200
				90/5A	Private	Wet	400
				90/5B pt	Private	Wet	1200
				91/1 pt	Government	Poramboke	600
				91/5 pt	Private	Wet	2800
				91/6A pt	Private	Wet	950
				91/6B pt	Private	Wet	500
				92/1 pt	Private	Wet	3100
				92/4A pt	Private	Wet	3300
				92/4B pt	Private	Wet	450
				92/5 pt	Private	Wet	3800
				92/6 pt	Private	Wet	600
				93/1 pt	Private	Wet	550
				109/3 pt	Private	Wet	1500
				109/6 pt	Private	Wet	4400
				113/4 pt	Private	Wet	3400
				114/1 pt	Private	Wet	900
				114/2A pt	Private	Wet	2000
				114/2B pt	Private	Wet	2000
				114/3 pt	Private	Wet	2100
				114/4A pt	Private	Wet	1300
				114/4B pt	Private	Wet	1700
				114/5B pt	Private	Wet	550
				114/5A pt	Private	Wet	350
				118/1 pt	Private	Wet	1000
				118/2 pt	Private	Wet	1600
				118/3 pt	Private	Wet	500
				118/6 pt	Private	Wet	2500
				118/7A	Private	Wet	100
				118/7B pt	Private	Wet	1200
				118/9 pt	Private	Wet	1600
				118/10A	Private	Wet	150
				118/10B pt	Private	Wet	600
				118/5 pt	Private	Wet	3250
				120/4A pt	Private	Wet	4500
				121/1B pt	Private	Wet	850
				121/2 pt	Private	Wet	650
				121/3 pt	Government	Poramboke	500
				121/4B pt	Private	Wet	1650
			(3) Ladanenthall	23/1 pt	Private	Dry	2000
				23/3 pt	Private	Dry	120
				23/4 pt	Private	Dry	50
				23/5 pt	Private	Dry	2300
				227/2 pt	Government	Poramboke	1320
				227/3 pt	Government	Poramboke	1020
				227/4	Government	Poramboke	400
				227/6 pt	Government	Poramboke	1800
				227/10 pt	Government	Poramboke	80
				228/1B pt	Private	Dry	1400
				228/1A	Government	Poramboke	100
			(4) Valaiyanenthall	80/ pt	Government	Poramboke	8300
				82/4 pt	Private	Wet	1485
				82/6 pt	Private	Wet	2565
				82/9 pt	Private	Wet	370
				83/1 pt	Private	Wet	3920
				83/2 pt	Private	Wet	4800
				83/3A pt	Private	Wet	380

1	2	3	4	5	6	7	8
				84/5 pt	Private	Wet	365
				90/3 pt	Private	Wet	65
				91/1A pt	Private	Dry	240
				91/1B	Private	Dry	300
				91/1C	Private	Dry	300
				91/2A	Private	Wet	1100
				91/2B pt	Private	Wet	550
				91/3 pt	Private	Wet	100
				91/5 pt	Private	Wet	80
				94/1 pt	Private	Wet	1250
				94/4 pt	Private	Wet	175
				94/5 pt	Private	Wet	500
				94/6	Private	Wet	950
				94/7	Private	Wet	800
				94/8A pt	Private	Wet	3800
				94/8B	Private	wet	1500
				94/8C pt	Private	Wet	1450
				94/8D pt	Private	Wet	650
				95/1 pt	Private	Wet	1000
				95/5 pt	Private	Wet	35
				130/ pt	Government	Poramboke	2815
				134/7 pt	Private	Dry	2070
				134/8 pt	Private	Dry	1150
				137/ pt	Government	Poramboke	1450
				140/1 pt	Private	Dry	3200
				140/2A pt	Government	Poramboke	920
				140/2B1 pt	Private	Dry	2450
				140/4 pt	Private	Dry	435
				140/5B pt	Private	Dry	975
				141 pt	Government	Poramboke	850
			(5) Mazhavarayanendal	109/1A pt	Private	Wet	3727
				109/1B pt	Government	Poramboke	700
				109/2 pt	Private	Wet	364
				109/3A	Private	Wet	800
				109/3B pt	Private	Wet	1214
				109/4A	Private	Wet	800
				110/1 pt	Government	Poramboke	37
				110/2A pt	Private	Wet	1319
				110/3A2 pt	Private	Wet	6
				110/2B	Government	Poramboke	2250
				110/3A6 pt	Private	Wet	916
				110/11 pt	Private	Wet	814
			(6) Thiruppuvanam	2/1A1A pt	Private	Dry	6680
				2/1A1A pt	Private	Dry	500
				2/1A2 pt	Private	Dry	735
				2/1A1B pt	Private	Dry	975
				2/1B	Private	Dry	1150
				2/2	Government	Poromboke	1400
				4/1A1A pt	Private	Dry	500
				4/1A1B pt	Private	Dry	2073
				4/1A2 pt	Private	Dry	1450
				4/1B pt	Government	Poromboke	400
				4/1C pt	Private	Dry	476
				4/6A pt	Private	Dry	91
				11/1A pt	Private	Dry	259
				11/1B pt	Private	Dry	240
				11/1C pt	Private	Dry	208



1	2	3	4	5	6	7	8
				11/2 pt	Private	Dry	582
				11/3 pt	Private	Dry	612
				11/4A pt	Private	Dry	1237
				11/5A1 pt	Private	Dry	1013
				11/5A2	Private	Dry	100
				11/6A pt	Private	Dry	1100
				11/7 pt	Private	Dry	574
				11/8A1 pt	Private	Dry	50
				11/8A2 pt	Private	Dry	184
				11/8A3 pt	Private	Dry	110
				11/8A4 pt	Private	Dry	100
				11/9A1A pt	Private	Dry	265
				11/9A1B pt	Private	Dry	1033
				11/9A2 pt	Private	Dry	1200
				11/10A1 pt	Private	Dry	172
				11/10A2 pt	Private	Dry	172
				11/10A3 pt	Private	Dry	72
				11/11 pt	Government	Poromboke	84
				12/1 pt	Government	Poromboke	700
				12/2A pt	Private	Dry	486
				14/1 pt	Private	G.R	1397
				14/2 pt	Private	G.R	644
				14/3 pt	Private	Dry	1450
				14/4 pt	Private	Dry	100
				14/9 pt	Private	G.R	2630
				14/10 pt	Private	Dry	460
				15/1 pt	Private	Dry	3485
				15/2 pt	Private	Dry	405
				15/3 pt	Private	Dry	380
				15/4 pt	Private	Dry	1210
				15/5 pt	Private	Dry	2230
				15/6 pt	Private	Dry	950
				15/7 pt	Private	Dry	398
				15/8 pt	Private	Dry	1438
				15/9 pt	Private	Dry	18
				15/10 pt	Private	Dry	2134
				16/13 pt	Private	Dry	232
				16/14 pt	Private	Dry	465
				19/2B pt	Private	Dry	45
				19/5 pt	Government	Poromboke	580
				63/1 pt	Government	Poromboke	92
				63/2 pt	Government	Poromboke	700
				63/3 pt	Government	Poromboke	2650
				64/2E3A pt	Government	Poromboke	300
				64/2E3B pt	Private	Dry	240
				119/2 pt	Private	Wet	750
				119/3B pt	Private	Wet	315
				119/4 pt	Private	Wet	110
				120/2B pt	Private	Wet	85
				120/6 pt	Private	Wet	2900
				120/3 pt	Private	Wet	1620
				123/1 pt	Private	Wet	800
				123/4 pt	Private	Wet	2400
				123/5 pt	Private	Wet	1880
				124/1 pt	Private	Wet	5100
				124/2 pt	Private	Wet	4050
				126/1 pt	Private	Wet	610

4533 4110-3

1	2	3	4	5	6	7	8
				126/2 pt	Private	Wet	2200
				126/3 pt	Private	Wet	2335
				126/4 pt	Private	Wet	365
				127/1 pt	Private	Wet	5930
				127/3 pt	Private	Wet	1960
				165/1A pt	Private	Wet	765
				165/1B pt	Private	Wet	30
				165/3A	Private	Wet	2200
				165/3B pt	Private	Wet	1800
				165/5B pt	Private	Wet	180
				166/1A pt	Private	Wet	3200
				166/2 pt	Private	Dry	385
				166/1B pt	Private	Wet	940
				166/1C pt	Private	Wet	1315
				223/5 pt	Private	Wet	1325
				224/2 pt	Private	Wet	1850
				224/3 pt	Private	Wet	2520
				225/1 pt	Private	Wet	3250
				225/2 pt	Private	Wet	3320
				225/3B pt	Private	Wet	915
				225/3C pt	Private	Wet	915
				225/3D pt	Private	Wet	2150
				225/4 pt	Private	Wet	1945
				225/5 pt	Private	Wet	2000
				225/6A pt	Private	Wet	935
				225/6B pt	Private	Wet	965
				168/1 pt	Government	Poromboke	300
				168/2 pt	Private	Wet	1225
				168/3 pt	Private	Wet	3650
				168/4A pt	Private	Wet	1050
				168/5A pt	Private	Wet	2155
				168/5B pt	Private	Wet	2065
				172/2B pt	Private	Wet	3650
				173/4A pt	Private	Wet	1965
				173/6 pt	Private	Wet	120
				173/4B	Private	Wet	850
				188/1 pt	Private	Wet	2560
				188/3 pt	Private	Wet	3435
				189/1 pt	Private	Wet	3340
				190/1 pt	Private	Wet	1040
				199/6 pt	Private	Wet	990
				199/7 pt	Private	Wet	1830
				199/8 pt	Private	Wet	3415
				199/13 pt	Private	Wet	80
				199/14 pt	Private	Wet	2000
				200 pt	Private	Wet	1710
				201/2 pt	Private	Wet	1940
				201/3 pt	Private	Wet	5390
				202/1 pt	Private	Wet	1965
				203/1 pt	Private	Wet	1030
				203/6 pt	Private	Wet	350
				203/2 pt	Private	Wet	785
				203/3A pt	Private	Wet	375
				203/3C pt	Private	Wet	1300
				203/3B	Private	Wet	1200
				203/5 pt	Private	Wet	2900
				203/4A pt	Private	Wet	1950

1	2	3	4	5	6	7	8
				203/4B pt	Private	Wet	1350
				204/1 pt	Private	Wet	975
				204/2 pt	Private	Wet	3205
			(7) Thiruppachethi - North	63/2A1 pt	Private	Wet	450
				63/2A2 pt	Private	Wet	247
				63/3 pt	Government	Poromboke	1333
				63/5A pt	Private	Wet	140
				63/5C pt	Private	Wet	330
				63/6B pt	Government	Poromboke	1310
				63/2B	Government	Poromboke	550
				63/6A1	Private	Wet	850
				63/6A2	Private	Wet	1750
				67/8 pt	Private	Wet	900
				68/3A1 pt	Private	Wet	776
				68/3B pt	Government	Poromboke	12
				68/1 pt	Private	Wet	35
				68/2 pt	Private	Wet	1532
				68/10 pt	Private	Wet	575
				68/5 pt	Private	Wet	1474
				68/3A2 pt	Private	Wet	696
				68/4A1 pt	Private	Wet	1127
				68/4A2 pt	Private	Wet	563
				68/6A pt	Private	Wet	839
				68/6A pt	Private	Wet	450
				68/11	Private	Wet	900
				68/12	Private	Wet	1400
				69/2 pt	Private	Wet	2692
				69/1 pt	Private	Wet	88
				69/7 pt	Private	Wet	373
				69/3A	Private	Wet	800
				69/8	Private	Wet	200
				69/3B1 pt	Private	Wet	1155
				69/3B2 pt	Private	Wet	138
				70/4 pt	Private	Wet	81
				70/7A pt	Private	Wet	192
				70/7B pt	Private	Wet	709
				70/6A pt	Private	Wet	891
				70/6B pt	Private	Wet	1068
				82/1A pt	Private	Wet	1549
				82/1B pt	Private	Wet	1422
				82/3 pt	Private	Wet	1387
				82/2 pt	Private	Wet	266
				82/7 pt	Private	Wet	944
				82/10 pt	Private	Wet	867
				82/5 pt	Private	Wet	321
				79/5 pt	Private	Wet	68
				79/7 pt	Private	Wet	1689
				79/6 pt	Private	Wet	36
				80/5 pt	Private	Wet	3370
				80/3B pt	Private	Wet	465
				80/4	Private	Wet	950
				80/6 pt	Private	Wet	514
				81/1C pt	Private	Wet	159
				81/1D pt	Private	Wet	1548
				81/5 pt	Private	Wet	116
				81/8 pt	Private	Wet	942
				81/9 pt	Private	Wet	53

1	2	3	4	5	6	7	8
				81/10 pt	Private	Wet	879
				81/7 pt	Private	Wet	837
				81/11A pt	Private	Wet	2336
				81/6	Private	Wet	350
				81/3	Private	Wet	200
				87 pt	Government	Poromboke	970
				86/2 pt	Private	Wet	25
				86/3 pt	Private	Wet	1290
				86/10 pt	Private	Wet	418
				86/4B1 pt	Private	Wet	615
				86/4A	Private	Wet	350
				86/4B2 pt	Private	Wet	35
				86/8 pt	Private	Wet	2330
				103/1 pt	Private	Wet	1856
				106/1 pt	Private	Wet	1450
				106/2B pt	Private	Wet	750
				106/2C pt	Private	Wet	1320
				106/2A	Private	Wet	1900
				105/1 pt	Private	Wet	343
				105/3 pt	Private	Wet	616
				105/7A pt	Private	Wet	964
				105/4 pt	Private	Wet	224
				105/8 pt	Private	Wet	2035
				105/6 pt	Private	Wet	1208
				105/7C pt	Private	Wet	276
				105/7D pt	Private	Wet	336
				105/7B	Private	Wet	2050
				118/2 pt	Private	Wet	1577
				107/1B pt	Private	Wet	1441
				107/9B pt	Private	Wet	568
				107/4A pt	Private	Wet	395
				107/4B pt	Private	Wet	1606
				107/12 pt	Private	Wet	635
				107/8 pt	Private	Wet	157
				107/2 pt	Private	Wet	39
				107/10 pt	Private	Wet	544
				107/3A pt	Private	Wet	279
				107/3B pt	Private	Wet	4
				107/11	Private	Wet	1150
				107/4C pt	Private	Wet	2032
				115/5 pt	Private	Wet	4662
				115/6 pt	Private	Wet	1982
				115/7B pt	Private	Wet	252
				112/2 pt	Private	Wet	905
				112/3 pt	Private	Wet	2450
				112/4A pt	Private	Wet	1284
				112/4B pt	Private	Wet	1250
				112/5 pt	Private	Wet	60
				113/1 pt	Private	Wet	942
				113/5 pt	Government	Wet	850
				113/4 pt	Private	Wet	1740
				113/7 pt	Private	Wet	228
				113/8A pt	Private	Wet	829
				113/9A pt	Private	Wet	1583
				113/11 pt	Private	Wet	30
				113/3A pt	Private	Wet	1388
				113/3B pt	Private	Wet	814

1	2	3	4	5	6	7	8
				114/1B pt	Government	Poromboke	1250
				114/2A pt	Private	Wet	428
				117/6 pt	Private	Wet	90
				117/7 pt	Private	Wet	594
				117/8A pt	Private	Wet	2425
				117/8B pt	Private	Wet	804
				117/9 pt	Government	Poromboke	432
				117/17 pt	Private	Wet	1646
				117/18	Private	Wet	550
				117/19 pt	Private	Wet	643

[F. No. NHAI-HQ/11013/2010-LA/Notif/PIU-Karaikudi]

S. S. GULIA, Director